



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना बसई जगनेर जनपद आगरा । 19.06.2022

थाना बसई जगनेर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटरसाइकिल अपाचे, 02 एलईडी, 12 जोड़ी बिछुआ, 04 जोड़ी पायल सफेद धातु, ₹0 3,215/- बरामद...

जनपद में चोरी, लूट, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने एवं संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बसई जगनेर को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक को 18.06.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त व चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान कस्बा तांतपुर से कुकर्सों जाने वाले मार्ग पर पत्थर मण्डी में 03 व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ कुछ सामान बोरे के साथ खड़े दिखायी दिये। पुलिस टीम को देख व्यक्ति सकपका गये। शक होने पर पुलिस टीम उनकी तरफ गयी तो भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया और दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में सफल रहे।

✓ पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम जीतू उर्फ जितेन्द्र एवं फरार अभियुक्त का नाम रामगोपाल गुर्जर उर्फ घोता व सुजान बताया गया। भागने का कारण पूछने पर बताया गया कि दिनांक 05.05.2022 की रात्रि को हम तीनों ने दो घरों में घुसकर ताला तोड़कर चोरी की थी, जिसमें एक घर में ताले तोड़ कर सोने, चाँदी, 02 एलईडी एवं कुछ पैसे चोरी किये थे एवं उसी रात दूसरे घर में जो देखने में काफी ठीक-ठाक लग रहा था। हम लोग दीवार पर चढ़कर अन्दर चले गये जहां दो व्यक्ति सो रहे थे। घर में रखे छोटी सन्दूक, जिसमें ताला लगा हुआ था, को उठाकर चुपचाप घर से भाग गये। जब उस सन्दूक को तोड़ा और उसमें रखे सोने, चाँदी व रूपये निकालकर भाग गये और सन्दूक को वहीं छोड़ दिया।

उपरोक्त दोनों घटनाओं से कुछ दिन पहले हम तीनों ने थाना सैया में दिनांक 27.04.2022 की रात्रि को नगला धनिया, मौजा विरहरू में हमने दो घरों में चोरी की थी, जिसमें हमें पायल, बिछुआ प्राप्त हुए थे। इस सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि इस सम्बन्ध में थाना सैया पर मु0अ0सं0 91/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

✓ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र निर्भय सिंह गुर्जर नि0 सिंघनिया थाना गढ़ी वाजना जनपद भरतपुर राजस्थान।

✓ बरामदगी का विवरण:-

01. 01 मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट।

02. 02 एलईडी।

03. ₹0 3,215/-।

04. 12 जोड़ी बिछुआ।

05. 04 जोड़ी पायल सफेद धातु।

✓ आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 17/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं0 18/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।

03. मु0अ0सं0 91/22 धारा 380 भा0द0वि0 थाना सैया जनपद आगरा।

✓ पुलिस टीम का विवरण:-

01. थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार चतुर्वेदी थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।

02. उ0नि0 श्री रामनिवास यादव थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।

03. का0 वीरेन्द्र सिंह थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।